

उत्तराखण्ड शासन
पशुपालन अनुभाग-2(डेरी)
संख्या- 137 /XV-2/01(05)/2017(डेरी)
देहरादून: दिनांक: 28 फरवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप

डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड की R.I.D.F. के अन्तर्गत स्वीकृत Renovation of Dairy Development की 07 योजनाओं हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-634/XV-2/01(05)/2017(डेरी), दिनांक 5 नवम्बर, 2018 के परिशिष्ट 'क' में अंकित कार्यों के निर्माण हेतु उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया गया है।

2. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कार्यालय ज्ञाप संख्या-634, दिनांक 5 नवम्बर, 2018 (छायाप्रति संलग्नक) को अतिक्रमिक करते हुये डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड हेतु R.I.D.F. के अन्तर्गत स्वीकृत Renovation of Dairy Development की 07 योजनाओं के सिविल निर्माण कार्यों हेतु नियोजन विभाग द्वारा नामित कार्यदायी संस्थाओं एवं उनके कार्य आवंटन की सीमा के आलोक में उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन (U.C.D.F.) को कार्यदायी संस्था के रूप में नामित किया जाता है।


(आर० मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्या- 137 /XV-2/01(05)/2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा० दुग्ध विकास मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सचिव/अपर सचिव, डेरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, प्रभारी सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, डेरी विकास विभाग, हल्द्वानी को इस आशय से प्रेषित कि कार्यदायी संस्था उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन (U.C.D.F.) से योजना के आगणन प्राप्त करते हुये शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
5. मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, देहरादून, उत्तराखण्ड
6. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फ़ैडरेशन लि० (U.C.D.F.) को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत योजना (07) के सिविल निर्माण कार्यों हेतु आगणन गठित कराकर विभागीय टी०ए०सी० सहित निदेशक, डेरी विकास विभाग, मंगलपड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. गार्ड फाईल।

संलग्न: यथोपरि।

आज्ञा से,

(मायावती ढकरियाल)
संयुक्त सचिव।